

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 16.11.2022

थाना कोतवाली चौक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

मंदिर की दान पेटी से चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 02 घटनाओं का खुलासा,

करीब 05 लाख के चोरी के आभूषण व नगदी बरामद।

दिनांक 2/3.11.2022 की रात्रि को थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित खाटू श्याम मंदिर से दान पेटी से नगदी आदि चोरी होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 591/22 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.11.2022 को वादी श्री अशोक कुमार मेका पुत्र नरसिम्हा राव, मूल निवासी, मकान नं0 6-684, काकानी नगर , जगयापेटा, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश तथा वर्तमान पता 5-6 साउथ सिटी एकस्टेंशन थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर के प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0- 613/22 धारा 381 भादवि पंजीकृत किया गया।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर द्वारा श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्री अखण्ड प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये।

*इसी क्रम में दिनांक 15.11.2022 को 23.30 बजे थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोनू पुत्र तौले निवासी मिश्रीपुर थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहांपुर को **मु0अ0सं0 591/22 धारा 457/380 भादवि से सम्बंधित 750/- रुपये नगद व मु0अ0सं0- 613/22 धारा 381 भादवि से सम्बंधित 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 मंगलसूत्र, 03 ब्रेसलेट व 06 अदद ईयररिंग** सहित चाँदापुर तिराहा अजीजगंज पर गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मोनू पुत्र तौले निवासी मिश्रीपुर थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहांपुर

बरामद माल का विवरण –

1. मु0अ0सं0 591/22 धारा 457/380 भादवि से सम्बंधित 750/- रुपये नगद
2. मु0अ0सं0- 613/22 धारा 381 भादवि से सम्बंधित पीली धातु की 01 चैन, 01 अंगूठी, 01 मंगलसूत्र, 03 ब्रेसलेट व 06 अदद ईयररिंग (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये।)

अनावरित अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 613/22 धारा 381/411 भादवि थाना कोतवाली शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 591/22 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली शाहजहांपुर

*** पूछताछ का विवरण *-** पूछताछ करने पर अभियुक्त मोनू उपरोक्त ने बताया कि साहब मै म.न. 56 साऊथ सिटी एक्सटेन्शन में मुकेश के घर में काम करता हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ। उनके घर में ऊपर की मंजिल में एक किरायेदार रहते है। जिनका नाम अशोक है। वह लोग अपना घर बन्द करके कही दर्शन करने 23 दिन के लिए चले गये थे। तो मै उनके घर से लालच में आकर चोरी कर लिया है। यह उन्ही के घर के जेवर हैं। मै इन्हे बेचने के लिए आज बरेली जा रहा था कि आप लोगों ने हमको पकड़ लिया है तथा बरामद 750 रुपये के बारे में पूछा गया बताया कि यह पैसे मैने दिनांक 03/11/22 को खाटूश्याम मंदिर साऊथ सिटी से दान पात्र का ताला तोड़कर रात में चोरी किया था। दान पात्र में कुल 1250 रुपये ही निकले थे जिसमें से 500/ रुपये मुझसे पीनेखाने में खर्च हो गये हैं। केवल 750 रुपये ही मेरे पास बचे है।

पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।
3. हे0का0 159 बलविन्दर सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।
4. का0 82 शैलेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।
5. का0 94 हरिओम सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।